

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937

No. 236]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2016/MAGHA 9, 1937

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2016

का.आ. 266 (अ).— जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुद्दुचेरी अधिनियम, 2008 (2008 का 19) की उप-धारा 6(4) के साथ पठित उप-धारा 5(1)(ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिपमेर, पुद्दुचेरी के संस्थानिक निकाय के सदस्य के तौर पर कार्य करने हेतु, श्री गोकुलकृष्णन, सदस्य, राज्यसभा का चयन किया गया है। जिपमेर, पुद्दुचेरी के संस्थानिक निकाय के सदस्य के रूप में श्री गोकुलकृष्णन, सदस्य, राज्यसभा का कार्यकाल 16-02-2019 तक होगा।

[फा. सं. वी-17014/03/2015-आईएनआई - II]

अली आर. रिजवी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2016

S. O. 266(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 5(1) (k) read with sub-section 6(4) of the Jawaharlal Institute of Post - Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008), Shri N. Gokulakrishnan, Member, Rajya Sabha has been elected to serve as member of the Institute Body of JIPMER, Puducherry. The tenure of Shri N. Gokulakrishnan, Member, Rajya Sabha will be upto 16-02-2019 as member of IB of JIPMER, Puducherry.

[F. No. V-17014/03/2015-INI-II]

ALI R. RIZVI, Jt. Secy.